



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 322]  
No. 322]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 2, 1978/कार्तिक 11, 1900  
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 2, 1978/KARTIKA 11, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विस्तृत मंत्रालय

सारणी

(राजस्व विभाग)

अधीनस्थनाएं

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1978

सीमाशुल्क

सा. का. नि. 526 (अ).—केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लांकीहित में आवश्यक है, निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट माल को, जब उसका भारत में किसी विकलांग या अशक्त व्यक्ति द्वारा उसके निजी उपयोग के लिए आयात किया जाए, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क से और उक्त टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क से छूट देती है, किन्तु इस शर्त पर कि आयातकर्ता आयात के समय सहायक सीमाशुल्क कलक्टर के समक्ष, सम्बद्ध राज्य के सिविल सर्जन या जिला चिकित्सा अधिकारी या प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी या निदेशक स्वास्थ्य सेवा या किसी सरकारी अस्पताल या मान्यताप्राप्त चिकित्सकीय महाविद्यालय से सम्बद्ध विशेषज्ञता में किसी विशेषज्ञ का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि आयातकर्ता उस विशेष विकलता या अशक्तता से पीड़ित है और वह आयातित माल जिसकी वास्तविक छूट मांगी गई है, उक्त विकलता या अशक्तता पर काबू पाने के लिए आवश्यक है।

782 GI/78—1

(1049)

- (1) बूले राइटर्स और बूले लेखक उपस्कर
- (2) हस्त लेखन उपस्कर-बूलेफ्रेम, स्लैट्स, राइटिंग गाइड, स्टाइली बूले इरेजर, स्ट्रिक्ट राइटिंग गाइड
- (3) केन, इलेक्ट्रॉनिक सहायक सामग्री जैसे कि सॉनिक गाइड
- (4) प्रशिक्षण, वातावरणीय संस्तर
- (5) अंकगणितीय सहायक सामग्री जैसे कि टैलर फ्रेम, अंकगणितीय और अलजबरा टाइप, क्यूबिकलिज्म, स्पीकिंग या बूले कलकलेंटर
- (6) ज्यामितीय सहायक सामग्री जैसे कि संयुक्त ग्राफ और गणितीय संप्रदर्शन बोर्ड, बूले प्रोटोटेस्ट, स्केल, कम्पास और स्पेअर व्हील
- (7) इलेक्ट्रॉनिक मापन उपस्कर जैसे कॉलिपर्स, माइक्रोमीटर्स, कम्परेटर्स, गाज, गाज ब्लाक्स, लेबल, रुक्स रूलर और गज
- (8) ड्राइंग, ड्राइंग, सहायक सामग्री, टेक्सटाइल डिस्प्ले
- (9) विशेषतया अनुकूलित दीवाल घड़ियां और हाथ की घड़ियां।

[सं० 206/फा०म०/459/146/77-सीमाशुल्क-3]

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATIONS

New Delhi, the 2nd November, 1978

## CUSTOMS

**G.S.R. 525(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do hereby exempt the goods specified in the Table below, when imported into India by a handicapped or disabled person for his personal use, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act 1975 (51 of 1975) and the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Tariff Act subject to the condition that the importer produces to the Assistant Collector of Customs, at the time of importation, a certificate from the Civil Surgeon or the District Medical Officer or the Administrative Medical Officer or the Director of Health Services of the concerned State or a Specialist in the concerned Speciality attached to a Government Hospital or a recognised medical college to the effect that the importer suffers from the particular handicap or disability and that the importer goods in respect of which the exemption is claimed are essential to overcome the said handicap or disability :—

- (i) Braille Writers and Braille writing equipment,
- (ii) Hand Writing equipment—Braille Frames, Slates, Writing Guides, Styli, Braille Erasers, Script Writing Guides,
- (iii) Canes, Electronic aids like the Sonic Guide,
- (iv) Optical, Environmental Sensors
- (v) Arithmetic Aids like the Taylor Frame, (Arithmetic and Algebra Types, Cubarythm, Speaking or Braille Calculator,
- (vi) Geometrical Aids like combined Graph and Mathematical Demonstration Board, Braille Protractors, Scales, Compasses and Spar Wheels,
- (vii) Electronic measuring equipment, such as Calipers, Micrometers, comparators, gauges, gauge blocks Levels, Rules, Rulers and Yardsticks,
- (viii) Drafting, Drawing aids, tactile displays,
- (ix) Specially adapted clocks and watches.

[No. 206/F. No. 459/146/77-CUS.V]

सा. क्र. नि. 525(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1978 (1978 का 19) की धारा 35 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हाँ आने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 96-सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 1978 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 212 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“213 सं0 206 सीमाशुल्क, तारीख 2-11-1978”

[सं. 207-कस्टम/एफ. नं. 459/146/77-कस्टम-5]

एस. बासु, अवर सचिव

**G.S.R. 526(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the customs Act 1962 (52 of 1962) read with sub-section (4) of section 35 of the Finance Act, 1978 (19 of 1978), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 96-Customs, dated the 12th May, 1978, namely :—

In the Schedule annexed to the said notification after Serial No. 212 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

“213-No. 206-Customs, dated the 2-11-1978”.

[No. 207-Cus./F. No. 459/146/77-CUS.V]

S. BASU, Under Secy.